MANOMAY TEX INDIA LIMITED REGD. OFF.: - 32, HEERA PANNA MARKET PUR ROAD, BHILWARA - 311001 (RAJ) CIN: L18101RJ2009PLC028647 Mail Id: ykladdha@hotmail.com Contact No.: 01482-246983

Website: www.manomaytexindia.com

Date: 16.12.2021

MTIL/BSE/2021-22

To,
The Secretary, Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001
Maharashtra, India

Scrip Code: 540396

Symbol: MTIL

Sub: <u>Submission of copy of Newspaper Advertisement in respect of Publication of Notice of Extra</u> - Ordinary General Meeting (EGM).

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with 47 of SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed herewith copy of Newspaper cuttings of the Financial Express (English) & the Jansatta (Hindi) newspapers both dated. 15th December, 2021 for publication of notice in respect of Book Closure and voting for the Extra- Ordinary General Meeting scheduled to be held on Monday 03rd January, 2022 at 32, Heera Panna Market, Pur Road, Bhilwara - 311001 (Raj).

Thanking you Yours faithfully

For: Manomay Tex India Limited

KAMESH SHRI SHRI MAL

Company Secretary and

Compliance Officer

FINANCIAL EXPRESS

DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act.) read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s), amount due as on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under:

Name of the Borrower(s). Description of secured **Demand Notice** /Guarantor (s) Date & Amount asset (immovable property) Mr. Prince Bansal, M/S 14-Dec-2021 All that piece and parcel of the property Prince Enterprises, Mrs. Rs. 27,86,589/- (Rupees being : Property No. 152, Area Manisha Bansal, Mr. Naresh | Twenty Seven Lakh Eighty | Admeasuring 646, First Floor, Pocket-17, Kumar (Prospect No. Six Thousand Five Hundred | Sector-24. Rohini. New Delhi-110085 Eighty Nine Only) If the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the

above secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers. For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: IIFL HFL Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi/or Corporate Office : IIFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana.

Place: Delhi Date: 16-12-2021 Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd



Union Bank

Stressed Asset Management Branch SCO 137-138, Sector 8C, Chandigarh-160008 Tele: 0172-2721096 Email id: sam.chandigarh@unionbankofindia.com

[Rule - 8 (1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property)

Whereas, The undersigned being the authorised officer of Union Bank of India Stressed Assets Management Branch under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 04.10.2021 calling upon the

Borrower/Guarantor/Mortgagor

M/s Hind Inns and Hotels Limited Through Sh. Ashish Mohan Gupta (Managing Director), House no 161, Sector 27 A, Chandigarh, Pin-160019, Registered Office: Plot no-15, Industrial Area, Phase-I, Chandigarh, Pin-160002

M/s Hind Inns and Hotels Limited Through Sh. Rajesh Sharma (Director), Registered Office: Plot no-15, Industrial Area, Phase-I, Chandigarh, Pin-160002 M/s Hind Inns and Hotels Limited Through Sh. Dev Sharma (Director), Registered

Sh. Ashish Mohan Gupta S/o Sh. Chander Mohan Gupta, House no 161, Sector 27 A. Chandigarh, Pin-160019

Office: Plot no-15, Industrial Area, Phase-I, Chandigarh, Pin-160002

M/s Hind Motors, Proprietor: Mr. Ashish Mohan Gupta, Address 1: Plot no 9, Industrial Area, Phase-I, Chandigarh-160002, Address 2: Plot no-15, Industrial Area, Phase-I Chandigarh-160002

to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 30,29,55,300.65 (Rupees Thirty Crore Twenty Nine Lakh Fifty Five Thousand Three Hundred and paise Sixty Five only) as on 31.08.2021 with subsequent interests and costs thereof within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this 14th December day of the year 2021.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Union Bank of India for an amount Rs.30,29,55,300.65 (Rupees Thirty Crore Twenty Nine Lakh Fifty Five Thousand Three Hundred and paise Sixty Five only) as on 31.08.2021 and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to the borrower to redeem the secured assets.

This publication may also be treated as notice of taking of Symbolic possession to the

M/s Fleur Hotels Pvt. Ltd. (Group Company of Lemon Tree Hotels) (Physica Possession holder of the above mentioned property)

Red Fox Hotel, Plot no 15, Industrial Area, Phase 1, Chandigarh-160002

Description of Immovable Property ALL that parts and parcels of Commercial Land and Building - belonging to M/s Hind

Motors (Prop. concern Sh. Ashish Mohan Gupta), situated at Plot No 15, Industrial Area, Phase 1 Chandigarh MEASURING 2130.10 Sq Yds and building constructed thereon (Hotel with 2 Basements, G+ 6 floor storied on commercial plot with Basement Floor-Lower=9394 Sq Ft, Basement Floor-Upper=7072 Sq Ft, G.F=6860 Sq Ft, Service Floor=6364 Sq Ft, F.F. to 6th Floor=6327 Sq Ft each, Total plinth area=61288 Sq Ft) SITUATED at Industrial Plot converted into Commercial plot by Chandigarh Administration, Chandigarh and bounded by East-Road, West-Plot No 16, Industrial Area, Phase-1, Chandigarh, North-Road, South-Plot No 37, Industrial Area, Phase-1, Chandigarh and other assets or securities whether moveable or immoveable covered under the security created by you in favour of the Bank

For Union Bank of India **Authorised Officer**

ALLIANCE INTEGRATED METALIKS LIMITED

CIN: L65993DL1989PLC035409

Registered Office: 5th Floor, Unit No. 506, Building No. 57, Manjusha Building, Nehru Place, New Delhi - 110019 | Tel. No.: 011-40517610 E-mail: alliance.intgd@rediffmail.com | Website: www.aiml.in

POSTAL BALLOT NOTICE Notice is hereby given to the Members of Alliance Integrated Metaliks Limited ("the Company").

pursuant to Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended ("Management Rules") and in compliance with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021 and 20/2021 dated December 08,2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("SEBI Listing Regulations") and other applicable laws, for seeking approval of the Members of the Company for the following resolutions by way of Postal Ballot through the remote e-voting process only ("remote e-voting") as set out in the Postal Ballot Notice dated December 10, 2021 together with the Explanatory Statement relating thereto:

10077
Description of Resolution

To Appoint M/S Chatterjee & Chatterjee, Chartered Accountants As Statutory Auditor To Fill Up The Casual Vacancy, Caused Due To Resignation Of M/S Arora & Choudhary Associates, Chartered Accountants

Approval Relating To The Change In Designation Of Mr. Bhawani Prasad Mishra From Non Executive - Independent Director To Non Executive - Non Independent Director

In compliance with MCA Circulars, the Company on Wednesday, December 15, 2021, has sent Postal Ballot Notice by e-mail only to the Members, whose names appear on the Register of Members/ List of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as on Friday, December 10, 2021("Cut-Off Date") and who have registered their e-mail address with the Company Depositories/ Registrar and Share Transfer Agent i.e. Beetal Financial & Computer Services (P) Limited. Physical copies of the Postal Ballot Notice along with postal ballot forms and pre-paid business reply envelopes have not being sent to Members for this Postal Ballot.

Detailed procedure and instruction for the remote e-voting is provided in the Postal Ballot Notice. The remote e-voting period commences at 9:00 a.m. (IST) on Thursday, December 16, 2021 and ends at 5:00 p.m. (IST) on Friday, January 14, 2022. The Company has engaged the services of CDSL as the agency to provide the remote e-voting facility. The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be disabled by CDSL upon expiry of the aforesaid period. Once the vote on a resolution is casted by a Member, he/she/it shall not be allowed to change it subsequently. Voting rights of a Member shall be in proportion to his/her/its shareholding in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-Off Date i.e Friday, December 10, 2021. Members are requested to provide their assent or dissent through the remote e-voting only. Aperson who is not a member on the Cut-Off Date shall treat this notice for information purpose only.

Members who have not registered their e-mail addresses, so far, are requested to register their e-mail addresses, in respect of electronic holdings with the Depository through their concerned Depository Participant(s). Members who hold shares in physical form are requested to register their e-mail addresses with Beetal Financial & Computer Services (P) Limited by sending an

Members may note that the aforesaid Postal Ballot Notice has been uploaded on website of the Company at www.aiml.in. The Postal Ballot Notice can also be accessed from the website of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and the Postal Ballot Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency proving the remote e-voting facility) i.e. www.cdslindia.com

The Board of Directors have appointed M/s S. Khurana & Associates, Practicing Company Secretaries (CP No.: 13212), as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through the remote e-voting process, in a fair and transparent manner The results of voting conducted through Postal Ballot (through the remote e-voting process)

will be announced on or before Sunday, January 16, 2022, and will be posted on the

Date: 15.12.2021

Place: New Delhi

financialexp.ep

Company's website i.e. www.aiml.in and CDSL i.e. www.cdslindia.com and will also be available on the website of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com. If you have any queries or issues regarding E-Voting you can write an email to

helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43. For Alliance Integrated Metaliks Limited

Daljit Singh Chahal

(Chairman Cum Wholetime Director)



The Authorized Officer of Bank of Baroda under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule-8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice on the date mentioned against account and stated hereunder calling upon the borrowers/guarantors/mortagagors to repay the amount mentioned in the notice being together with further interest at contractual rate on the aforesaid amount and incidental expenses, costs, charges etc. within sixty days from the date of receipt of said notice. The borrowers/guarantors/mortgagors having failed to repay the amount notice is hereby given to the borrowers/guarantors/mortgagors and the public in general that the undersigned has taken the possession of the properties described herein below in exercise to powers conferred on him/her under section 13(4) of the said act read with the Rule 8 of the said Rules on the date mentioned hereunder. The borrowers attention is invited to the provision of Sub-Section (8) of section - 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets. The borrowers/guarantors/mortgagors in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the properties. Any dealing with the properties will be subject to the charge of Bank of Baroda for the amounts and interest thereon. Details of the mortgaged Properties of which the possession had been taken is as follows.

Name of the Borrowers /Guarantors	Details of the Mortgaged Property	Date of Demand notice	posse-	
Singh S/o Sone Lal and Mrs. Poonam Devi W/o Tej Singh and Guarantor: Shri Manoj Kumar Sharma S/o	All that part and parcel of the property consisting of E.W.S. House no. A-153, Sector-A, Shastripuram Yojana, Lohamandi Ward, Tehsil & Distt Agra, Bounded: East: E.W.S. House no. A-91, West: Common Space, North: E.W.S. House no. A-90, South: E.W.S. House no. A-152.	04.10.202	13.12.2021	Rs. 8,34,990.44 + Interest & other expenses
Date:- 16.12.2021		Auth	orise	d Officer

इंडियन बैंक Indian Bank ALLAHABAD ∆ङलाहाबाद

Zonal Office, 55 The Mall, Meerut Cantt

NOTICE UNDER 13 (2) OF SARFAESI ACT 2002, **READ WITH RULES 3 OF SECURITY INTEREST ENFORCEMENT RULES 2002**

I being an Authorised Officer of the Secured Creditor Bank has a reason to believe that all of you the under mentioned notice can not be served ordinarily as attempted earlier except this substituted service. As such , all of you the under mentioned notices are hereby informed and called upon through this public DEMAND NOTICE under section 13(2) of the SARFAESI Act with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rule 2002 make payment of the amount due against each of you, as mentioned below, within 60 days. Thereafter the bank will proceed U/s 13 (4) of the said Act for taking possession of the secured property/ies/ Assets mentioned against account and thereafter to sell the same to realize its dues with further interest till realization along with costs as contemplated under the said Act. Needless to mentioned here that this notice is addressed to you without prejudice to any other remedy available to bank for recovery of its dues, against you. Name of the Borrower/ Guarantor Details of Security /

and Address & Account No.	Property	25.11.2021	
Proprietor Shri Raju (Borrower)	M/s Aman Garments through A commercial Shop admeasuring total area 5.10 prietor Shri Raju (Borrower) Sq. Mtr i.e. 6.10 Sq. Yrd bearing no. 64 now ress: Shop No.57, Madhur Complex, present no. 57 situated within building known as		
Hapur Chowk, Meerut.	"Madhur Complex" at Mohalla Ramnagar, Near Old Hapur Stand Chauraha, District Meerut.	bate of sending bemand Notice	
53/3. Madho Nagar, Near Lakhanpal Nursing Home, Hapur Road, Meerut.	Measurement & Boundries are as under: East: 11 ft. 2 inch wall afterwards gate of Complex, West:	Date of Return of Demand Notic (Registered) : 15.12.2021	
3. Mrs. Rekha W/o Shri Raju R/o 53/3, Madho Nagar, Near Lakhanpal Nursing Home, Hapur Road, Meerut (Guarantor/Mortgagor) 4. Mr. Dinesh Kumar S/o Shri Kanti Prasad R/o 134, Gandhi Nagar, Meerut. (Guarantor) 5. Mohd Asif S/o Mohd Yamin R/o 4, Kidwai Nagar, Meerut. (Guarantor) Account No. 50106512906 with Indian	ower) 7 ft. wall afterwards other's shop, North: 6 ft. 1 inch door afterwards Rasta, South: 7 ft. 2 inch wall afterwards other's shop ower, Near Lakhanpal Nursing afterwards other's shop Owner/Title holder: Mrs. Rekha W/o Shri Raju R/o 53/3, Madho Nagar, Near Lakhanpal Nursing Home, Hapur Road, Meerut Hypothecated Stocks, Book Debts, receivables, movable assets and other current assets of the firm (M/S. Aman Garments), both present and future. Owner/Title holder: M/s. Aman Garments through Proprietor Shri Raju. Address: Shop No. 57, Madhur Complex, Hapur Chowk,	Amount due as per Demand Notice Rs. 7,87,600.00 + future Interest and Costs etc as on 25.11.2021	
proprietor Shri Ashok Kumar Saini	A Residential Property admeasuring total area 349.33 Sq. Mtr. i.e. 417.80 Sq. Yrd. bearing Khasra	02 12 2021	
Bhopa Road, Muzaffarnagar (U.P.)	no. 293 situated at Village Jat Mujhera, Pargana & Tehsil & District Muzaffarnagar. Measurement & Boundries are as under: East: 15 ft. Road, West:	Date of NPA: 15.11.2019	
Mr. Ashok Kumar Saini S/o Shri Sukhbeer Singh (Borrower/ Mortgagor) Mrs. Bahita Saini W/o Shri Ashok	Shop of Sukhbeer Singh, North: Rasta Bhopa	hu Bond Book 44 42 2024	
Numar Saini (Guarantor) Both Roo	Owner/Title holder: Mr. Ashok Kumar Saini S/o Shri Sukhbeer Singh R/o Gandhi Nagar, Kookda, Pargana & Tehsil & District	Date of Return of Demand Notic	
& District Muzaffarnagar.	Muzaffarnagar. Hypothecated Stocks, Book Debts, receivables,	Amount due as per Demand Notice	
		Rs. 36,65,817.98 + future Interest and Costs etc as on 02.12.2021	
Dated: 15.12.2021	Place: Meerut	Authorised Officer	

PNb Housing Finance Limited

Regd. Office:- 9th Floor, Antriksh Bhavan, 22, K G Marg, New Delhi-110001. Phones:- 011-23357171, 23357172, 23705414, Website: www.pnbhousing.com

oida Branch Address:- PNB Housing Finance Limited, GF, D-2, Sec- 3, Noida (U.P.) - 201301 Delhi- Green Park Branch Address: PNB Housing Finance Ltd, Building No. S-8, Uphar Cinema Complex, Green Park extn. New Delhi-110016

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY/IES) Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the PNB Housing Finance Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financial

Assets & in compliance of Rule 8(1) of Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued demand notice/s on the date mentioned against each account calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice(s)/date of receipt of the said notice/s. The borrower/s having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/s and the public in general that the undersigned has taken possession of the property/les described herein below in exercise powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned against each account. The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/les and any dealing with the property/les will

be subject to the charge of PNB Housing Finance Ltd, for the amount and interest thereon as per loan agreement. The borrowers' attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

SI. No.	Loan Account Number	Name of the Borroweri Co Borroweri Guarantor	Date of Demand Notice	Amount Outstanding	Date of Possession Taken	Description of the Property/ies Mortgaged
1.		Mr. Aparna Shukla (Borrower) And Mr. Akshay Nagde (Co- Borrower)	20-07-2021	Rs. 88,66,952.73/- (Rupees Eighty Eight Lakhs Sixty Six Thousand Nine Hundred Fifty Two & Seventy Three Paisa Only) as on 20.07.2017		All that part and parcel of property no- Flat No- 1203, 12th Floor, C1, Unitech, South Park, Gurgaon
2.	001666600 02381, B.O. NOIDA	Mr. Bhanu Pratap Singh (Borrower) And Mr. Lal Singh (Gurantor)	13-07-2021	Rs. 5,40,589.02/- (Rupees Five Lakh Forty Thousand Five Hundred Eighty Nine And Two Paisa Only) as on 13.07.2021	14-12-2021 (Symbolic)	All that part and parcel of property no- PLOT NO. IIIF/418, 2nd Floor, Sector-3, Vaishali, Ghaziabad, UP 201010
3.		Mr. Niranjan P. Sinha (Borrower), Mr. Rajeev Ranjan (Guarantor) And Mrs. Shwetna Sinha (Co-Borrower)		Rs. 7,21,695.40/- (Rupees Seven Lakh Twenty One Thousand Six Hundred Ninety Five and Forty Paisa Only) as on 13.07.2021		All that part and parcel of property no- Flat No-L-206, 2nd Floor, Aura Chimera, Raj Nagar Ext., NH-58, Noor Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201010
4.	0916/31444 1, B.O.	Mr. Prakashchand Shukia (Borrower) & Ms. Vandana (Co- Borrower)	15-09-2021	Rs.19,57,231/- (Rupees Nineteen Lakh Fifty Seven Thousand Two Hundred Thirty One Only) as on 15/09/2021	14-12-2021 (Symbolic)	FLAT NO 1111,11, Block K, Stellar One, Sector GH-09, Sector 1, Greater Noida West (UP), Gautam Budh Nagar, Greater Noida, Uttar Pradesh, India-201301
5.		Mr. Amit Singh (Borrower) & Mr. Jagpal Singh Raghav (Co- Borrower)	19-08-2021	Rs. 30,24,133.24/- (Rupees Thirty Lakh Twenty Four Thousand One Hundred Thirty Three And Twenty Four Paisa Only) as on 19.08.2021		All that part and parcel of property no-A4/ 1901,19,Tower-4 (A-4), CASA Greens-I, Plot No. GH-04A, Sec-16, Supertech Eco Village-III, Greater Noida, UP 201301
6.	NHL/NOI/0 119/632950 B.O. NOIDA	Mr. Tarun Kumar Arora (Borrower), Mr. Arpan Arora (Co-Borrower) And Everbiz Solutions Pvt Ltd (Co-Borrower)	19-07-2021	Rs. 50,05,332.91/- (Rupees Fifty Lakh Five Thousand Three Hundred Thirty Two & Ninety One Paisa Only) as on 19.07.2021		All that part and parcel of Property no- B- 149, 14th Floor, Tower-B, ATS Bouquet Commercial, Plot No-A2/2, Sec-132, Noida, Uttar Pradesh- 201301
7.		Everbiz Solutions Private Limited (Borrower) And Mr. Tarun Kumar Arora (Co- Borrower)	19-07-2021	Rs. 60,70,374.17/- (Rupees Sixty Lakh Seventy Thousand Three Hundred Seventy Four & Seventeen Paisa Only) as on 19.07.2021		All that part and parcel of property no- 107, 1st Floor, Tower-A, The I Thum, A- 40, Sector-62, Near Ginger Hotel, Noida- 201301

MANOMAY TEX INDIA LIMITED MANOMAY Regd. Office: 32, Heera Panna Market Pur Road, Bhilwara - 311001 (Rajasthan) Ph: - 01482-246983 Email: ykladdha@hotmail.comWebsite: www.manomaytexindia.com CIN:L18101RJ2009PLC028647 NOTICE TO MEMBERS OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that an Extra-ordinary General Meeting ("EGM") of the Shareholder of the Company will be held on Monday, January 03, 2022 at 01:00 P.M. (IST) at the Registered Office of the Company at 32, Heera Panna Market, Pur Road, Bhilwara - 311001 (Rajasthan), to transact the business as set out in the Notice of the Extra-Ordinary General Meeting (EGM).

The Notice convening EGM of the company has been sent through electronic mode on 10th December,2021 to all shareholders of the company whose Email Addresses were registered with Company/ Depository Participants). The Copy of Notice is also available on the Company's website //ttp://manomaytexindia.com/notice.html,https://www.bseindia.com/

Any Person who Become the Member of the Company after Dispatch of Notice of EGM and Holding Shares as on the Cut-off Date i.e. 28.12.2021, can send request to cs@manomaytexindia.com.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the Listing Regulation (Including any Statutory Modification or re-enactment thereof for the time being in force), the Company is not providing e-Voting facility as per Provisions of Companies Act, 2013, as SME listed Company is not Mandatory to provide E-voting Facility.

The Board of Directors has appointed Sanjay Somani& Associates as scrutinizer for the conduct of the voting process in a fair and transparent manner.

The Company has fixed Tuesday, 28th December, 2021 as the "CUT-OFF DATE" for determining the eligibility. The Company has fixed Tuesday, 28th December, 2021 as the "CUT-OFF DATE" for determining the eligibilit of the members to vote by Polling Paper (Ballot Form) (MGT-12) at the Extra-Ordinary General Meeting (EGM).

The Register of the Members and share Transfer book of the company shall remain closed from 28.12.2021 to 03.01.2022 (both days inclusive) Members seeking any information are requested to send written queries to the Company, at least one week before the date of the meeting from their registered e-mail address mentioning their names, DP ID and Client ID/folio number, PAN and mobile number at cs@manomaytexindia.com. Replies will be provided in respect of

such written queries received only at the meeting. For Manomay Tex India Limited (Kamesh Shri Shri Mal) Company Secretary

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed to the general public that the following 14 Locker Cabinet transfer from Barakhamba Road, New Delhi branch in January 2018 at Central Bank of India, RWA, Noida Branch located at RWA Sector-15A, Noida, U.P. has been inactive for a long time and records related to these are also not available in the branch:

Locker No.4 : Cabinet from Barakhamba Road Br. Locker No.9 : Cabinet from Barakhamba Road Br. Locker No.14 : Cabinet from Barakhamba Road Br. Locker No.28 Cabinet from Barakhamba Road Br. Locker No.31 Cabinet from Barakhamba Road Br. Locker No.32 : Cabinet from Barakhamba Road Br. Locker No.50 : Cabinet from Barakhamba Road Br. Locker No.51 : Cabinet from Barakhamba Road Br. Locker No.54 Cabinet from Barakhamba Road Br. Locker No.57 : Cabinet from Barakhamba Road Br. Locker No.58 : Cabinet from Barakhamba Road Br. : Cabinet from Barakhamba Road Br. Locker No.66 Locker No.74 : Cabinet from Barakhamba Road Br.


The branch will break the above locker at 01:00 PM on or after 21.12.2021. If anyone has any claim in respect of these lockers and has any objection, then by 20.12.2021, all the documents related to the locker can be lodged with the branch / claim in the branch. After this and without documents no claim in this regard will be admissible and the bank will not have any responsibility.

Date: 16.12.2021 Chief Manager, Central Bank of India, Place: NOIDA, U.P. RWA, Sector-15A, Noida Branch

TMPORTANT vinist care is taken prior to acceptance

advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on advertisement in any manner whatsoever.

0 0 M tiseme 0



the name you can BANK upon!

punjab national bank थि 🍱 पंजाब नैशनल बैंक

Circle Sastra Centre (830700), Zilla Vikas Bhavan, Rohtak, 124 001, Tel No. 01262-244836, Email: cs8307@pnb.co.in POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas undersigned being the authorized officer of PUNJAB NATIONAL BANK under the

Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 read with Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued demand notices on the dates mentioned against each account calling upon the respective borrowers/guarantors to repay the amount at mentioned against each account within 60 days from the date of notices/date of receipt of said notices. The borrowers/guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the

borrowers/ guarantor in particular and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rule, on the dates mentioned against each account. The borrower's/ guarantors/mortgagors attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets. The borrowers/guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the

property and any dealing with the property will be subject to the charge of Punjab National Bank for the amount and interest thereon, given below:

Description of Name of the Account Demand Possession as per **Property Mortgaged Demand Notice** Borrower / Guarantor/ Notice Affixed Notice Branch Office: 1. All that part and parcel of 11.08.2021 | 14.12.2021 Rs. 1,27,15,145,90/plus interest and property consisting of - Raj Hotel, Municipal No. -Jhajjar Road, Rohtak 1. M/s Hotel Raj through its 314/16, situated at Vijay Nagar, Near Jain Jati Mandir, charges with w.e.f. proprietor Smt. Raj Bala Rohtak, total area measuring 282.07 Sq. Yards of 01.08.2021. Saini, 314/16 Vijay Nagar, properties vide Sale Deed bearing Number 9332/1 dated 10.01.2008 Jhajjar Road, Rohtak-124001 (measuring 237 sq. yards) in name of Sh. Raj Pal Saini S/o Sh. Deiram Saini, Sale Deed Number 2645/1 Dated 23.06.1999 (measuring 22.5 sq. yards) in name of Smt. Raj Bala W/o Sh. Raj Pal Saini, Gift Deed Number 273/1 Dated 2. Smt. Raj Bala Saini W/o Sh.

08.04.2004 (measuring 22.57 sq. yards) in name of Smt. Raj Bala, registered Sh. Raj Pal Saini, 314/16 Vijay in the office of Joint Sub Registrar, Rohtak Nagar, Jhajjar Road, Rohtak-2. All that part and parcel of property consisting of Residential House measuring 98.75 sq. yards situated at 314/16, Vijay Nagar, Rohtak 3. Sh. Raj Pal Saini S/o Dei registered in the name of Smt. Raj Bala W/o Sh. Raj Pal Saini vide Ram Saini, 314/16 Vijay Nagar, judgment and decree dated 28/02/1986 passed by the Court of Sh. Nand Jhajjar Road, Rohtak-124001, Kishore, HCS, Sub Judge IInd Class and same is bounded as :- East: - 26

Date of

Date of

Amount O/s

Authorised Officer

4. Sh. Sunil Saini s/o Sh. Raj feet 0 inch, ownership bahiban, West: - 26 feet 0 inch, ownership Balbir Pal Saini (Guarantor), 314/16 Singh, North: - 34 feet 2 inch, ownership Balbir Singh, South: - 34 feet 2 inch, Vijay Nagar, Jhajjar Road, common passage 4 feet 6 inch wide. Near Jain Jati Mandir, Rohtak-124001, Sh. Sunil Saini s/o Sh. Raj Pal Saini (Guarantor), Saini clinic, Near Guard College, Gau Karan Road, Rohtak-124001, 6. Smt. Suman Lata w/o Sh. Sunil Saini (Guarantor), 314/16 Vijay Nagar, Jhajjar Road, Near Jain Jati Mandir,

Rohtak-124001 Dated: 15.12.2021 Authorized Officer, Punjab National Bank Place: Rohtak

124001.

Name of the Branch



HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED The Capital Court, Munirka, Outer Ring Road, Olof Palme Marg, New Delhi-110067

WITH YOU, RIGHT THROUGH

Tel: 011-41596676/568, CIN L70100MH1977PLC019916, Website: www.hdfc.com

Tender Sale Notice for Sale of movable goods / items found at the mortgaged property being House No. R-5/62, RAJNAGAR, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH (hereinafter referred to as the "Mortgaged Property") at the time of taking possession the said Mortgaged Property under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

New Delhi

The Authorized Officer of Housing Development Finance Corporation Limited (HDFC Ltd) has taken possession of the mortgaged property being R-5/62, RAJNAGAR, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH under the provisions of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 on 4-MAR-2021. That at the time of taking possession of the Mortgaged Property, movable goods / items belonging to Occupants of the property were found inside the mortgaged property. Inspite of the repeated notices / reminders, neither the borrowers nor the occupants of the said Mortgaged Property at time of taking of possession namely Mr. Soresh Batra and Sandeep Batra have failed to remove the movable goods / items and accordingly the Authorized Officer of HDFC has no option but to sell the movable goods / items on "Asiswhereis", "Asiswhatis", and "Whateverthereis" as per the details mentioned below.

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
Names of Borrower(s)& Occupants	Description of the movable Properties to be auctioned	DATE, TIME & PLACE OF INSPECTION	Reserve Price	Last date of submission of bids	Earnest money deposit	Date& time of Opening of Bid
Borrowers:-MR GOPENDRA KALRA, MS DHARMENDRA KALRA, MRS RENU KALRA, MR KAVINDRA KALRA, MRS SEEMA KALRA, MRS SUNITA KALRA, MRS MONIKA KALRA, MRS PHOOL RANI KALRA, MR DEEPAK KALRA & PRAGATI LOGISTICS PRIVATE LIMITED Occupants of Property at time of taking of possession:- Mr. SoreshBatra and Sandeep Batra	COMMON HOUSEHOLD ITEMS AS PER THE INVENTORY PREPARED BY THE DUTY MAGISTRATE AT THE TIME OF TAKING POSSESSION OF THE MORTGAGED PROPERTY AS DETAILED ABOVE.*	21-DEC-2021 From 12:00 NOON to 1:00 PM at House No. 5/62, RAJNAGAR, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH	Rs. 3,65,000/- (Rupees Three Lacs Sixty Five Thousand Only)	30-DEC-2021 before 5 PM at HDFC Limited office at 2nd Floor, The Capital Court, Munirka, Olof Palme Marg, Outer Ring Road, New Delhi-110067	10% of the Bid Amount	31-DEC-2021 from 10 AM to 10:30 AM at HDFC Limited office at 2nd Floor, The Capital Court, Munirka, Olof Palme Marg, Outer Ring Road, New Delhi-110067

*List of inventory / movable goods / item can be collected from HDFC LTD Office at 2ND FLOOR, THE CAPITAL COURT, MUNIRKA, OLOF PALME MARG, NEW DELHI-110067 The tender bid has to be submitted along-with 10% EMD during office hours at 2ND FLOOR, THE CAPITAL COURT, MUNIRKA, OLOF PALME MARG, OUTER RING ROAD, NEW DELHI-110067 in a sealed envelope on or before the last date as indicated in column (E) hereinabove

The movable goods / items are being sold on "AS IS WHERE IS" and "AS IS WHAT IS" basis.

Regd. Office: Ramon House, H.T. Parekh Marg, 169, Backbay Reclamation, Mumbai – 400020

Date: 15-DEC-2021

Place: NEW DELHI

Demand Notice

Locker No.3 : Cabinet from Barakhamba Road Br.

Date of Demand Notice

घारा 82 सीआरपीसी देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त गणेश थापा पुत्रः सूरज थापा निवासीः **आरजेड—57, दीप एन्क्लेव, पार्ट—03, विकास नगर, दिल्ली** ने FIR No. 533/19, U/S 420/406/34 IPC, थाना रनहौला, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उन पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त गणेश थापा मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त गणेश थापा फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है।)

इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि FIR No. 533/19. U/S 420/406/34 IPC, थाना रनहौला, दिल्ली के उक्त अभियुक्त गणेश थापा से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद / मुकद्मा का उत्तर देने के लिए दिनाक 17.01.2022 को या उससे पूर्व हाज़िर हो।

आदेशानुसार श्री आकाश शर्मा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट-08, कमरा नं. 30. प्रथम तल तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/1384/OD/2021(Court Matter)

मनोमय टेक्स इंडिया लिमिटेड MANOMAY

शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक की सूचना एतह्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के शेयरधारक की एक असाधारण आम बैंक्क ("ईजीएम") सोमवार, 03 जनव 2022 को दोपहर 01:00 बजे (आईप्रसटी) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 32, हीरापन्ना मार्केट, पुर रोड, भीलवाड़ 311001 (राजस्थान) पे आयोजित की जाएगी। निर्धारित व्यापार के लिए असाधारण आम बैठक (ईजीएम) की सूचना ।

कंपनी की इंगीपुम बुलाने की सूचना 10 दिसंबर, 2021 को इलंक्यूनिक मोड के माध्यम से कंपनी के उन सभी श्रीयाबार को भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी/डियॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत थे)। नोटिस की प्रति कंपनी व का धज दा गई हे जिनके इंभेल पत कपनां/(डेबॉजिटर्स) प्रतिभागियों के पास पंजीकृत थे)। नोटिस की प्रति कंपनी वर्व वबसाइट पर भी उपलब्ध है hitp://manomaylexindia.com/notice.html.https://www.bseindia.com/ कोई भी व्यक्ति जो ईजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि यार्न 28.12.2021 को शेयर खता है, वो अनुरोध इस पते पे भेज सकता है cs@manomaytexindia.com. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपारन में कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, औ तिरिटंग विनियमन के विनियमन 44 (किसी भी साविधिक संशोधन या उस समय के लिए फिन से लागू होने सहित) कंपने अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी है-वोटिंग सुविधा प्रदान नहीं कर खी है, क्योंकि एसएमई सुर्चोबद्ध कंपन ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए अनिवार्य नहीं है। निदेशक मंद्रल ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान प्रक्रिया के संचालन के लिए संजय सोमानी एंड एसोसिएट्स कं

संवीक्षक नियुक्त किया है। कंपनी ने असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में मतदान पत्र (बैलेट फॉर्म) (एमजीटी-12) द्वारा मतदान करने के लि कापना न असाआरण आम बठक (इजाएम) म मतदान पत्र (बलट फाम) (प्पनाटा-12) द्वारा पतदान करन के हला सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के हिए परंगलवार, 28 दिसंबर, 2021 को "कट-आंक्त विधि" के रूप में निर्धारित क्याई स सदस्यों का उंतरदर और कंपनी की शेषर ट्रांसफर बुक 28.12.2021 से 03.01.2022 (दोनों दिन ग्रामिल) तक बंद खेगी। किसी भी जानकारी की यांग करने वाले सदस्यों से अनुशेध है कि वे कंपनी को बैठक की तारीख से कम से कम एक सप्ता इस्तेश अपने पंत्रीवहृत इं- मेल पत्ते अपने नाम, डीणी आईडी और क्याइंट आईडी प्रामिलों गंबर पेन और मोबाइल नंदर कर इस्तेश करते हुए शिविड प्रभन इस इंग्लें पे भेजें। cs@manomaylexindia.com. उत्तर केवल बैठक में ग्राप्त ऐसे लिखिल

क्रनों के संबंध में पटान किया जाएगा। स्यान- भीलवाडा हस्ताक्षारत /-(श्री कामेश श्री श्रीमाल) तिथि- 15/12/2021



Central Bank of India 1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः आरडब्ल्यूए सेक्टर-१५ए, नोएडा, उ०प्र०

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित 14 लॉकर कैबिनेट जो बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली शाखा से जनवरी 2018 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरडब्ल्यूए सेक्टर-15ए, नोएडा, उ०प्र० स्थित आरडब्ल्यूए शाखा में स्थानान्तरित हो गए थे, जो लम्बे समय से निष्क्रिय अवस्था में हैं एवं इनसे सम्बन्धित रिकॉर्ड भी शाखा में उपलब्ध नहीं है :-

लाकर न.उ		बाराखबा राड शाखा स काबनट
लॉकर नं.4	:	बाराखंबा रोड शाखा से कैबिनेट
लॉकर नं.9	:	बाराखंबा रोड शाखा से कैबिनेट
लॉकर नं.14	:	बाराखंबा रोड शाखा से कैबिनेट
लॉकर नं.28	:	बाराखंबा रोड शाखा से कैबिनेट
लॉकर नं.31	:	बाराखंबा रोड शाखा से कैबिनेट
लॉकर नं.32	:	बाराखंबा रोड शाखा से कैबिनेट
लॉकर नं.50	:	बाराखंबा रोड शाखा से कैबिनेट
लॉकर नं.51	:	बाराखंबा रोड शाखा से कैबिनेट
लॉकर नं.54	:	बाराखंबा रोड शाखा से कैबिनेट
लॉकर नं.57	:	बाराखंबा रोड शाखा से कैबिनेट
लॉकर नं.58	:	बाराखंबा रोड शाखा से कैबिनेट
लॉकर नं.66	:	बाराखंबा रोड शाखा से कैबिनेट
लॉकर नं.74	:	बाराखंबा रोड शाखा से कैबिनेट

शाखा उपरोक्त लॉकर 21.12.2021 को या उसके बाद अपराह्न 01:00 बजे तोड़ देगी। अगर किसी का इन लॉकर के सम्बन्ध में कोई दावा है और कोई आपत्ति है तो दिनांक 20.12.2021 तक लॉकर से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों के साथ अपनी आपत्ति / दावा शाखा में दर्ज करा सकते हैं। इसके उपरान्त एवं बिना दस्तावेजों के इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा एवं बैंक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।

दिनांकः 16.12.2021 मुख्य प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्थानः नोएडा, उ०प्र० आरडब्ल्यूए, सेक्टर-15ए, नोएडा शाखा

ALLIANCE INTEGRATED METALIKS LIMITED

CIN: L65993DL1989PLC035409

Registered Office: 5th Floor, Unit No. 506, Building No. 57, Manjusha Building, Nehru Place, New Delhi - 110019 | Tel. No.: 011-40517610 E-mail: alliance.intgd@rediffmail.com | Website: www.aiml.in

POSTAL BALLOT NOTICE Notice is hereby given to the Members of Alliance Integrated Metaliks Limited ("the Company

pursuant to Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended ("Management Rules") and in compliance with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021 and 20/2021 dated December 08,2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("SEBI Listing Regulations") and other applicable laws, for seeking approval of the Members of the Company for the following resolutions by way of Postal Ballot through the remote e-voting process only ("remote e-voting") as set out in the Postal Ballot Notice dated December 10, 2021 together with the Explanatory Statement relating thereto:

Description of Resolutions

To Appoint M/S Chatterjee & Chatterjee, Chartered Accountants As Statutory Auditor To Fill Up The Casual Vacancy, Caused Due To Resignation Of M/S Arora & Choudhan Associates, Chartered Accountants

2. Approval Relating To The Change In Designation Of Mr. Bhawani Prasad Mishra From Nor Executive - Independent Director To Non Executive - Non Independent Director

In compliance with MCA Circulars, the Company on Wednesday, December 15, 2021, has sent Postal Ballot Notice by e-mail only to the Members, whose names appear on the Register of Members/ List of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as on Friday, December 10 2021("Cut-Off Date") and who have registered their e-mail address with the Company Depositories/ Registrar and Share Transfer Agent i.e. Beetal Financial & Computer Services (Limited. Physical copies of the Postal Ballot Notice along with postal ballot forms and pre-paid business reply envelopes have not being sent to Members for this Postal Ballot.

Detailed procedure and instruction for the remote e-voting is provided in the Postal Ballot Notice The remote e-voting period commences at 9:00 a.m. (IST) on Thursday, December 16, 2021 and ends at 5:00 p.m. (IST) on Friday, Janaury 14, 2022. The Company has engaged the services of CDSL as the agency to provide the remote e-voting facility. The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be disabled by CDSL upon expiry of the aforesaid period. Once the vote on a resolution is casted by a Member, he/she/it shall not be allowed to change it subsequently. Voting rights of a Member shall be in proportion to his/her/its shareholding in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-Off Date i.e Friday, December 10, 2021. Members are requested to provide their assent or dissent through the remote e-voting only. A person who is not a member on the Cut-Off Date shall treat this notice for information purpose only.

Members who have not registered their e-mail addresses, so far, are requested to register the e-mail addresses, in respect of electronic holdings with the Depository through their concerned Depository Participant(s). Members who hold shares in physical form are requested to register their e-mail addresses with Beetal Financial & Computer Services (P) Limited by sending an e-mail at beetalrta@gmail.com.

Members may note that the aforesaid Postal Ballot Notice has been uploaded on website of the Company at www.aiml.in. The Postal Ballot Notice can also be accessed from the website of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and the Postal Ballot Notice is also disseminated or the website of CDSL (agency proving the remote e-voting facility) i.e. $\underline{www.cdslindia.com}$ The Board of Directors have appointed M/s S. Khurana & Associates, Practicing Company

Secretaries (CP No.: 13212), as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through the remote

e-voting process, in a fair and transparent manner The results of voting conducted through Postal Ballot (through the remote e-voting process) will be announced on or before **Sunday, January 16, 2022**, and will be posted on the Company's website i.e. <u>www.aiml.in</u> and CDSL i.e. <u>www.cdslindia.com</u> and will also be

available on the website of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com. If you have any queries or issues regarding E-Voting you can write an email helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43.

For Alliance Integrated Metaliks Limited

Date: 15.12.2021 Place: New Delhi

Daljit Singh Chahal
(Chairman Cum Wholetime Director)

APPENDIX IV [See rule 8(1)] **POSSESSION NOTICE** (For immovable property)

The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd." Head office at, C-29. Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058 having its registered office at 1916, Chuna Mandi, Pahar Ganj, New Delhi-110055, unde The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Securit nterest Act. 2002. (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12 read with rule [3] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Ban demand notice on dated10-06-2021, calling uponthe borrow Sh. Parveen Kumar S/o. Late Sh. Mahabir Singh R/o. RZ-20 D/2, Gali No.1 Main Sagarpur, New Delhi-110046 also at Sh. Parveen Kumar S/o. Late Sh. Mahabi Singh, RZ-411/318, Gali No.7, Gitanjali Park, Sagarpur, New Delhi-110046, and calling upon the Mortgagor & Surety Smt. Suman W/o. Sh. Parveen Kuman R/o. RZ-411/318, Gali No. 7, Gitanjali Park, Sagarpur, New Delhi-110046, to repay the amount mentioned in the notice being ₹6,85,123/- (Rupees Six Lakhs Eighty Five One Hundred and Twenty Three Only), together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of the notice till the date of payment, with in 60 days from the date of receipt of the notice.

The above mentioned borrower, mortgagor & surety having failed to repay the amour notice is hereby given to the borrower, mortgagor, Surety and the public in general that the Bank has taken possession of the property described here in below in exercise o powers conferred under sub-section (4) of section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with rule [8] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on this 14th day o December 2021.

The borrower, mortgagor & surety in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the mortgaged property and any dealings with the property wil be subject to the charge of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.",for an amount of ₹6,85,123/- together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of notice till the date o realization together with all the costs incurred by the Bank in realizing the said amount. The borrower, mortgagor& surety attention is also been invited towards provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financia Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of time available, to redeem the below mentioned mortgaged property/Secured Asset.

DESCRIPTION OF THE PROPERTY

The property under All the part and parcel of the PLOT BEARING NO. 411

Measuring 75 Sq.Yds.

consideration is Entire LAND MEASURING 75 SQ. YDS. i.e. 62.7075 SQ. Built up Residential METERS, OUT OF KHASRA NO.318, SITUATED IN THE AREA OF VILLAGE NASIRPUR, DELHI STATE, COLONY KNOWN AS WEST SAGARPUR. NEW DELHI-110046 Falling Under the Registration of Sub-Registrar IX, Delhi.

Which is bounded as Under:-

EAST : Other's Property.
WEST : Remaining Portion of the above mentioned property.

NORTH: Road 18' wide. SOUTH: Other's property.

(MEENAKSHI VATS) **AUTHORISED OFFICER** THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. **HEAD OFFICE AT, C-29, COMMUNITY CENTRE** PANKHA ROAD, JANAKPURI, NEW DELHI-58 DELHI. Phone No.9013568418,9013568419.

DATED : 14.12.2021

टाटा कैंपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः ११वां तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर पार्ल, मुंबई-400013 शाखा पता ् टाटा कैंपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, द्वितीय तल जेएस टॉवर 16/106 द मॉल कानपुर-208001

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु सूचना (प्रतिमूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत) प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्ग अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी सूचना

रतदद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न उधारकर्ता तथा ∕सह–उधारकर्ता अथवा उनव . विधिक वारिसों / प्रतिनिधियों (उधारकर्ताओं) को विशिष्ट रूप में सूचित किया जाता है कि टाटा कैंपिटत हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल) के पास बंधक निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका भौति . कब्जा टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, का विक्रय जो है वो 24 जनवर्ष 2022 को ''जैसी है जहां है'' एवं ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर, निम्न वर्णित उधारकर्ता एवं सह—उधारकर्ताओं से बकाया देयराशियों की वसली के लिए किया जाएगा। आरक्षि मूल्य तथा धरोहर राशि जमा का उल्लेख नीचे किया गया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है वि विक्रय के किसी स्थगन/समापन की अनुपस्थिति में. उक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति/संपत्ति का विक्र ई-नीलामी द्वारा उक्त 24 जनवरी 2022 को अप. 2.00 बजे कर दिया जाएगा। ई-नीलामी में प्रतिभागित . करने के लिए धराज के डिमांड ड्राफ्ट से युक्त मोहरबंद लिफाफा टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकार्र के पास 21 जनवरी 2022 को सायं 5 बजे तक अथवा इससे पूर्व शाखा के पते. टाटा कैपिटल हा सिंग फाइनेंस लिमिटेड, द्वितीय तल जेएस टॉवर 16/106 द मॉल कानपुर-208001 पर प्रस्तुत कर

प्रतिभूत परिसंपत्ति / अचल संपत्ति का विक्रय जो है, वो यहां इसमें निम्न विवरणित संक्षिप्त विवरणों

क	मनुसार ''जर	ना ह जहां हे अवस्था" म हागाः		
豖.	ऋण खाता	उधारकर्ता(ऑ) / सह—उधारकर्ता(ऑ) /	मांग सूचना के	आरक्षित मूल्य
सं.	सं.	विधिक वारिस(सॉ)/	अनुसार राशि	धरोहर
		विधिक प्रतिनिधि / गारंटर(रॉ) के नाम		राशि
	0.004000	श्री गजेंद्र सिंह नेगी (उधारकर्ता) तथा श्री	₹. 1,25,78,788 / -	₹. 3,74,32,512/-
1.	9524800	सुमित नेगी (सह–उधारकर्ता) और श्री शिव	29 जून 2021	₹, 37,43,252 / -
		चरण सिंह नेगी (सह–उधारकर्ता) और श्री		,,,
		दलबीर सिंह नेगी (सह–उधारकर्ता) और		
		श्रीमती गायत्री देवी (सह–उधारकर्ता) और		
		श्रीमती अनीता नेगी (सह–उधारकर्ता)		

अचल संपत्ति का विवरण : समस्त वह आवासीय भूखंड/यूनिट प्रीमियम भूखंड नं. एम/पीआर/25 जिसका भूमि मापन पूर्व में – 30 मीटर, पश्चिम में – 30 मीटर, उत्तर में – 16.10 मीटर और दक्षिण में – 16.10 मीटर है कुल क्षेत्र 483 वर्ग मीटर के रूप में समाविष्ट है, जो केशवपुरम, स्कीम नं. 01 आवास विकास, कल्याणपुर, कानपुर, उ.प्र.–208017 में स्थित है, जो दिनांकित 27 जून 2014 व निष्पादित स्वामित्वधारक विकय विलेख में उल्लिखित आम सविधाओं के साथ है और जो इस प्रका ानेषातित स्वामित्वारक विक्रय विलंख में खेल्लाखा औम सुविधाओं के साथ है, और जी इसे प्रका परिसोमित हैं : पूर्व — भूखंड नं. एम/पीओर—26, पश्चिम — भूखंड नं. एम/पीओर—24, उत्तर — मीटर सड़क, दक्षिण — 30 मीटर सड़क टिप्पणी : टीसीएचएफएल के विरुद्ध उधारकर्ताओं द्वारा दर्ज एक आवेदन एसए नं. 397/2021 जो : वो डीआरटी, इलाहाबाद के समक्ष लंबित हैं। उक्त प्रसंग में टीसीएचएफएल के विरुद्ध कोई स्थानादेर

नीलामी में, जनसाधारण को व्यक्तिगत रूप में अपनी बोली(लियां) जमा/प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रि किया जाता है। उधारकर्ता(ऑ) / सह-उधारकर्ता(ऑ) को एतदद्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवसों के अंदर भावी ब्याज के साथ कुल बकाया देयराशियों का भुगतान करने के लिए अंतिम् अवसर प्रदान किया जाता है। अंतिम अवसर का लाभ उठाकर भूगतान करने में विफल होने पर अच संपत्ति को अनुसूची के अनुसार बेच दिया जाएगा। ई.-नीलामी उस स्थिति में भी रोक दी जाएगी, परि ब्याज एवं लागतों (विक्रय की लागत सहित) के साथ उपर्युक्तानुसार देय राशि प्राधिकृत अधिकारी के भुगतान कर दी जाती है अथवा अधिकारी की संतुष्टि हेतु इस बात का साक्ष्य दिया जाता है कि ऐसे प्रतिभूत ऋण व इसके ब्याज एवं लागतों की राशि का नीलामी की तिथि से पूर्व भुगतान कर दिया गया है। कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो इस विक्रय के संबंध में कोई भी कार्य–दायित्व निभा रहा है, यद्यपि वह कार्य—दायित्व को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में ही क्यों न निभा रहा हो, वह बोल दान नहीं कर सकता, बेची गई अचल संपत्ति में कोई हित उपार्जित नहीं कर सकता अथवा उपार्जित

. विक्रय जो है, वो प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में निर्धारित शर्तों तथा निम्नलिखित भाव शर्तो के अधीन होगा

टेप्पणी : संपत्तियों की ई—नीलामी पोर्टल https://DisposalHub.com के माध्यम से 24 जनवरी 202 को अप. 2.00 बजे से लेकर के अप. 3.00 बजे तक 10 मिनटों प्रत्येक के असीमित विस्तार के साध

राभारता का जाएंगा। नियम एवं शहें : (1) यहां इसमें निम्न दी गई अनुसूची में विनिर्देष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरकर्ता की संपूण जानकारी के अनुसार वर्णित किए गए हैं, परंतु अधोहस्ताक्षरकर्ता फिर भी इस उद्दधोषणा में हुई/होन वाली किसी तुटि, गलत-विवरण अथवा चूक हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। बोली राशि से संबंधित, अथव बोलीदाता से संबंधित, किसी विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में अचल संपत्ति को एक बार फिर से . गीलामी के लिए रख दिया जाएगा, जो प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधीन होगा। (2) अचल संपत्ति व नीलीमों के लिए रखे वियो जीएगी, जी प्राधिकृत अधिकारी के विवकाशान होगी। [2] अवल संपात्त के विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा। (3) बोली वृद्धि राशि रु. 10,000 /— (रुपए दर्स हजार मात्र) होगी। (4) संपत्ति के क्रयार्थ जमा /प्रस्तुत की गई समस्त बोलियों के स्व उपर्युक्तानुसार धरोहर राशि "टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि." के पक्ष में आहरित शाखा परे पर भुगतानयोग्य डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संलग्न होनी चाहिए। नीलामी के उपरांत असफल बोल दााओं को डिमांड डाफ्ट वापस कर दिए जाएंगे। एनईएफटी /आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्य धराज के भुगताने हेतु कृपया प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। (5) सर्वोच्च बोलीदाता को तब ह प्तफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाएगा, जब वह सदैव बोलीदान हेतु विधिक रूप में अईव पाया जाता है और इसक अतिरिक्त जब उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो। या प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधीन होगा कि उस स्थिति में सर्वोच्च बोली की स्वीकृति को अस्वीका कर सकते हैं जब यह उन्हें यह ज्ञात हो कि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप हो कि वह बोल ोदान करने के लिए अनुचित लग रहा हो। (6) अभिलेखित कारणों के लिए यह प्राधिकृत अधिकारी व विवेक पर होगा कि वे विक्रय स्थगित कर दें / उसे समाप्त कर दें। (7) अचल संपत्ति का अवलोक नो है वो पूर्व नियुक्ति के साथ 17 जनवरी 2022 को 11.00 बजे से लेकर के 5.00 बजे तक किर जा सकता है। (ब) एक सफल बोलीदाता के रूप में घोषित हो चुके व्यक्ति को तत्काल ऐसी घोषण के बाद, क्रयराशि/बोली की 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी, जिसमें धराज राशि भी सम्मिलि होगी, और यह राशि प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी, और यह राशि जमा करने में चूक होने पर संपत्ति को तत्काल प्रभाव से निजी संधि द्वारा की जानेवाली नई नीलामी/विक्रय हेतु रख दिया जाएगा। (9) यदि उपरोक्तानुसार आंशिक राशि जमा कर दी जाती हैं तो क्रयराशि की शेष रकम का गुगतान केता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संपत्ति के विक्रय की अभिपुष्ठि की तिथि से 15वें दिवस को अथवा इससे पूर्व करना होगा, इसमें ऐसा दिवस छूट जाएगा, अथवा याँ 15वें दिन रविवार या अन्य अवकाश पड़ता हैं तो तब 15वां दिवस जो होगा वो अवकाशों के बाद आन प्रथम कार्यालय दिवस होगा। (10) ऊपर वर्णित अवधि के अंदर किसी भुगतान में चूक होने क स्थिति में संपत्ति को निजी सिध द्वारा नहीं नीलामी/विक्रय हेतु स्था दिया जाएगा। धराज सहिर जन जमा राशियों को टाटा कैंपिटल हाजसिंग फाइनेंस लि. द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। धराज सहिर जन संपत्ति से संबंधित समस्त दायों से वंचित हो जाएगा। (11) टाटा कैंपिटल हाजसिंग फाइनेंस लि. व हात किसी भारयस्तात के विवरण, जिस हेतु संपत्ति हैं : शूच हैं। दाये, यदि कोई, जिन्हें संपत्ति हे आगे रखा गया है और कोई अन्य ज्ञात विवरण जो इसकी प्रकृति एवं मूल्य से संबंधित है : शूच्य हैं इच्छुक बोलीदाता को सलाह है कि वे संवैधानिक प्रदेयताओं सर्पत्ति कर, विद्युत आदि के बकायों सिंह संपत्ति पर भारग्रस्तताओं के संबंध में अपने स्वयं के स्तर पर स्वतंत्र जांच–पड़ताल कर लें। (12) किर्स अन्य विवरण के लिए अथवा ई—नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण की प्रक्रिया हेतू प्रस्तावित बोलीदात सेवा प्रदाता मै. नेक्सन सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, पता : 203, द्वितीय तल, श्री श्याम पैलेस, सेक्टर एवं 5 क्रॉसिंग, रेलवे रोड, गुरुग्राम—122 006 को इसके मोबाइल नं. 91 97100 29933, 91 98100 29926, दूरभाष नं. 91 124 4 233 933, ई—मेल आईडी : CSD@disposalhub.com से अथवा श्री अरिजित भट्ट को उनकी ई—मेल आईडी : Arijit.bhatt@tatacapital.com प्राधिकृत अधिकारी

के पास जमा / प्रस्तुत करना होगा। (१४) उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रतिभृत ऋणदाता की वसाइट में उपलब्ध निम्न लिंक https://bit.ly/3m7Gjau का संदर्भ ग्रहण करें। pपया नोट करें – टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति के विक्रय∕नीलामी के लिए उक्त वर्णित नीलामक . गाझीदार के अलावा किसी अन्य ब्रोकर/एजेंट को कार्यव्यस्त नहीं किया है। इच्छुक पक्षकारों को इर संबंध में पूछे जानेवाले समस्त प्रश्नों एवं पूछताछों के लिए केवल अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा प्राधिकृ अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

टीसीएचएफएल. मोबाइल नं. 9029073280 पर संपर्क कर सकते हैं। क्या अपने प्रश्नों को व्हाट्सएं ांबर — 9029073280 पर प्रेषित करें। (13) सर्वोच्च बोली राशि पर 1 प्रतिशत का टीडीएस लागू होग

जिसका सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना है। सर्वोच्च बोलीदाता को भुगतान क स्वामी/उधारकर्ता(ओ) के पैन के अंतर्गत करने की आवश्यकता है और चालॉन की प्रति हमारी कंपर

हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी स्थान : कानपुर दिनांक : 16.12.202⁻

पंजाब मैशनल बैंक

फोनः 011-47519273, ई—मेंल : cs8320@pnb.co.in

परिशिष्ट IV (नियम 8(1) कब्जा सूचना परिशिष्ट IV प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(4) के साथ पठित

अर्थन सम्पत्ति हेतु) जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत **पंजाब नैशनल बैंक,** मण्डल शस्त्रा केन्द्र, दक्षिणी दिल्ली, **भीकाजी कामा प्लेस** का प्राधिकत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए उधारकर्ता / गारंटर्स / बंधककर्ता मोहसिन खान निवासी प्लॉट नं. 35, प्लैट नं. 502, सुपरटेक न्क्लेव, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन—1, गाव—पसौंदा, गाजियाबाद, यूपी 201001, जावेद खान निवासी प्लॉट नं. 35, पलैट नं. 502, सुपरटेक एन्क्लैव, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन—1, गांव—पसौंदा, गाजियाबाद, यूपी 201001, **मोहम्मद यूनुस खान** निवासी प्लॉट नं. 35, पलैट नं. 502, सुपरटेक एन्क्लेव, गांव—पसौंदा, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन—1, गाजियाबाद, यूपी 201001, **मोहम्मद वाली हसन,** निवासी 846, कैला रोड, गाजियाबाद यूपी—201001 <mark>और:</mark> प्लॉट नं. 35, फ्लैट नं. 502, सुप्रटेक एन्क्लेव, गांव—पसौंदा, शालीमार् गार्डन एक्सटेंशन—1, गाजियाबाद, यू.पी.—201001 को मांग नोटिस दिनांक 22.09.2021 को जारी किया था, जिसमें बकाया राशि रू. 10,88,036.50 (रु. दस लाख अड्डासी हजार छत्तीस और पैसे पचास मात्र) दिनांक 31.08.2021 तक और संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, प्लस लागत एवं खर्चे इत्यादि सहित पूर्ण चुकौती की तिथि तक, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भूगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता / गारंटर्स / बंधककर्ता उक्त राशि का मुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्वारा उधारकर्ता / गारंटर्स / बंधककर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि . गंजाब नैशनल बैंक के अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक 14.12.2021 को कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ता(ओं) का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से वेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन—देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **पंजाब नैशनल बैंक, शाखा के प्रभार वास्ते बकाया राशि रू. 10,88,036.50 (रु. दस** लाख अड्डासी हजार छत्तीस और पैसे पचास मात्र) दिनांक 31.08.2021 तक और भविष्य का

अचल सम्पत्तियों का विवरण

ब्याज, लागत एवं खर्चें इत्यादि सहित के अधीन होगा

रिहायशी फ्लैट 502, चौथा तल, बिना छत के अधिकार के, एचआईजी, सुपर कवर्ड क्षेत्रफल 92.90 वर्ग मी., फ्री होल्ड प्लॉट नं. 35, सुपरटेक एनक्लेव, रिहायशी कॉलोनी, शालीमार गार्डन एक्स.–1, गाँव–पसौंदा, तहसील और जिला गाजियाबाद, यू.पी. मे स्थित, यह सम्पत्ति मोह. मोहसीन खान और मोह. जावेद खान के नाम पर है।

दिनांकः 14.12.2021, स्थान : गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

सार्वजनिक घोषण

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पेरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली 016 के विनियम 6 के अधीन मैसर्स सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

		सुसंगत विशिष्टियाँ
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	22.06.2009
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	सीआईएन : U74900DL2009PTC191452
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	4था तल, खसरा नं. 378, श्री साई कॉम्पलेक्स, कापसहेड़ा, नई दिल्ली–110037
6.	अक्षमता आरंभन की तिथि	15 दिसम्बर, 2021 (आईआरपी द्वारा आदेश प्राप्ति की तिथि) (माननीय एनसीएलटी का आदेश दिनांक 30 नवम्बर, 2021)
7.	समापन की पूर्वानुमानित तिथि	12 जून, 2002, ऋणशोधन अक्षमता प्रक्रिया प्रारम्भ होने की तिथि से 180 दिन
8.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	नाम : संजय कुमार पंजीकरण सं. IBBI/IFA-001/1RP019226/2020-2021/13025
9.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई- मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	पंजीकृत कार्यालय : डी-131/1, छतरपुर एक्सटेंशन, निकट बाबा बालकनाथ मन्दिर, नई दिल्ली-110074 पंजीकृत ई-मेल आईडी : IP.KUMARSANJAY@GMAIL.COM
10.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई–मेल	पत्राचार/58, प्रथम तल, सुश्रान्त लोक-III, सेक्टर 57, गुरुग्राम-122003 पत्राचार पता : cirpms.km@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि	29 दिसम्बर, 2021, आईआरपी की नियुक्ति की तिथि से 14वां दिन
12.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चत लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	निल
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	
14.	(क) सम्बन्धित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों के विवरण उपलब्ध हैं:	प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक : www. ibbi.gov.in/download- forms.html

एतद्वारा सचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने सीपी(आईबी)3420/एनडी/2019 दिनांक 30 प्चर, 2021 (आदेश प्राप्ति की तिथि 15 दिसम्बर, 2021) के माध्यम से मैसर्स सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है।

मैससे सपोर्ट सबिसेज प्राइवेट लिमिटेड के सभी लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 29 दिसम्बर, 2021 को अथव इससे पूर्व अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के प्रविष्टि सं. 10 में उल्लिखित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दाव का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रविष्टि सं. 12 के सम्मख सचीबद्ध के अनुसार किसी वर्ग से सम्बन्धित वित्तीय लेनदार प्रपन्न सीए में किसी वर्ग के अधिकत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के सम्मुख सूचीबद्ध तीन ऋणशोधन अक्षमता प्रोफेशनलों में से किर्स वर्ग का अधिकृत प्रतिनिधि सूचित करेगा।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी। मैसर्स सपोर्ट सर्विसेज पाडवेट लिमिटेड के मामले र पंजीकरण संख्याः IBBI/IFA-001/1RP019226/2020-2021/13025

RESIDENTIAL PROPERTY AVAILABLE FOR SALE

Residential DDA Flat admeasuring 1100 Sq. Ft. situated at 11, Nehru Apartment, 2nd Floor, Kalkaji outer Ring Road, New Delhi-110 019. (With Lift facility)

All the details of the property and terms and conditions for sale are available on our official Website www.sicomindia.com

मांग सूचना

ातिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (उक्त नियमावली) के नियम 3(1) के साथ पठित थित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिक त्वं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उक्त नियमावली के निर . 5 साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईआईएफएल होम फाइनांस ि क साथ भारत उस्त आधानपत्र का याथा 15(12) के अताना प्रदत्त शास्त्राया का प्रयाग करत हुए आइआइएकएत हाम फाइनारा एव आईआइएकएल एवपफरस्तुल (पूर्व में इंडिबा इच्नेसाहान ताउरिस फाइनासि ति). के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्क अधिनियम वी ध 3(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी कर ऋणघारकों को उन्हें जारी की गई संबंधित मांग सूचना(ऑ) में घर्णित राशि घापस लीटाने व 0427 कि जिस्ते में में पूर्व में ने प्रति क्षार पुनः एतद्वारा ऋण्यास्त्रों की निर्देश दिया अपनेक्त के सिर्वासिय में एक बार पुनः एतद्वारा ऋण्यास्त्रों की निर्देश दिया जात्रों के कि मांग सूचना की तिथि से भुगत ही तिथि तक आगे के ध्याज के साथ यहां नीचे दर्शाई गई ग्रिश का इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। ऋण्यास्त्र ांग सचना की तिथि को बकाया राशि तथा ऋण राशि के पनर्भगतान के लिये प्रस्तावित प्रतिभति का विवरण इस प्रकार है: मांग सूचना तिथि एवं राशि प्रतिभृति परिसम्पत्ति (अचल सम्पत्ति) का

सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः सम्पत्ति सं. 152 ण्टरप्राईं जेज, श्रीमती मनीशा ₹. 27,86,589/ एरिया माप 646, प्रथम तल, पॉकेट-17, सेक्टर-2 सल, श्री नरेश कुमार (रु. सत्ताईस लाख छियासी हजार पाँच सौ रोहिणी, नई दिल्ली-110085 .. नवासी मात्र) (प्रॉस्पेक्ट नं. 828906) दि उक्त ऋणधारक उपरोक्त रूप में आईआईएफएल एचएफएल को भुगतान करने में विफल होते हैं तो आईआईएफएल एचएफए

गधारकों की जोखिमों एवं लागत पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू होने वाले नियमों के अंतर्गत उक्त प्रतिभृ उम्मत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। अधिक विवरणों के लिये कृपया शाखा कार्यालयः प्लॉट नं. 30/30ई, ऊपरी भू तल, मैन शिवाज मार्ग, नजफगढ़ रोड़, जगआर शो रूम के बगल में, मोती नगर, नई दिल्ली में प्राधिकत अधिकारी एवं अथवा कॉर्पोरेट कार्याल आईआईएफएल टावर, प्लॉट नं. 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गाँव, हरियाणा में सम्पर्क करें। स्थान : दिल्ली हस्ता./- प्राधिकत अधिका

आईआईएफएल होम फाइनांस लि. के लिये तिथि: 16.12.2021

एलसीआरडी डिविजन/नई दिल्ली फेंडरल टॉवर्स, ऊपरी भूतल, 2/2 वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली—110008 होन नं 011—40733980 **981 98**2

फंडरल बैक

ई—मेलः ndllcrd@federalbank.co.in सरफ़ेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) (यहां के बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) व साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत सूचना

यशवीर सिंह, पुत्र श्री छोटू राम, निवासी: एच.नं. 153, चोपरा पट्टी, ग्राम झरसा, गुड़गाँउ रेयाणा-122001

सन्नी कुमार, पुत्र श्री यशवीर सिंह, निवासी: एच.नं. 153, चोपरा पट्टी, ग्राम झरस गुड़गाँव, हरियाणा-122001

. प्राथ ही: खसरा नं. 463, तिकली, गुड़गाँव, हरियाणा–122101

आप में 1 ने प्रधान ऋणधारक के रूप में तथा आप में 2रे ने सह-देनदार, के रूप में बैंक वे पक्ष में आवश्यक प्रतिभृति अनुबंधों/ ऋण दस्तावेजों को निष्पादित करने के बाद फेडरल बैंव लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय अलवारे में है (यहाँ के बाद बैंक वर्णित) की तिकली, गुरुग्राम, हरियाणा शाखा में ब्रैण्ड न पेट्रोल/सीएनजी कार मारुति वैगन आर, वर्ष 2018, मॉडल, चैसिस न MA3EWDE1500E25170, जिसका पंजी. नम्बर HR26DR9228, इंजिन न K10BN8102493 है, की खरीद के लिये 20.8.2018 को स्वीकत तथा 21.8.2018 के वितरित की गई रु. 4,00,000/- (रु. चार लाख मात्र) की फेडरल कार लोन की सुविधा प्राप्त की थी। बैंक से प्राप्त उपरोक्त साख सुविधा की प्रतिभृति के लिए श्री यशवीर सिंह ने निम्न सम्पत्तियों के संदर्भ में हाइपोथेकेशन द्वारा बैंक के पक्ष में प्रतिभति हित का निर्माण किया है:

ब्रैण्ड न्य पेटोल/सीएनजी कार-मारूति वैगन आर. वर्ष 2018 मॉडल. चैसिस र MA3EWDE1500E25170, पंजी. नम्बर HR26DR9228 इंजिन नं. K10BN8102493

जो पंजीकर्ता प्राधिकरण एसडीएम गुरुग्राम (एन), गुरुग्राम, हरियाणा के अंतर्गत 29.8.2018 कं पंजीकृत है। उपरोक्त हाइपोथेकेटेड/ गिरवी संपत्तियां यहां के बाद "प्रतिभूत परिसंपत्तियों" के रूप में वर्णित हैं। फेडरल बैंक लि. के प्राधिकत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी एतद द्वारा आपको सचित करते हैं कि बैंक वे तिकली, गरुग्राम, हरियाणा शाखा में आपकी कार लोन खाता 22337400000090 के अंतर्गत 23.9.202° को रु. 1,89,525 (रु. एक लाख नवासी हजार पाँच सौ पच्चीस मात्र) की राशि आप पर संयुक्त तथ पृथक रूप से बकाया है। पुनर्भुगतान में आपकी चूक को देखते हुए भा.रि.बै. के दिशा निर्देशों के अनुसा

हाडपोथेकेटेड चल संपत्तियों का विवरण

हणधारक/सह-ऋणधारक तथा सांविधिक उत्तराधिकारी के रूप में आप सभी बैंक की बकाये का भुगतान् करने के लिये उत्तरदायी हैं। एतदहारा आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर 23,9,2021 से भगता की तिथि तक मासिक रेस्टस के साथ 8.10% की दर पर आगे के ब्याज तथा 2% प्रति वर्ष की दर से दंड ब्याज तथा लागतों के साथ उक्त राशि का भुगतान करें, अन्यथा, बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत आप तथा ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध पट्टा, एसाइन्मेंट अथवा बिक्री द्वारा उसके अंतरण अथव आपको आगे कोई सूचना दिए बिना बकाए की वसूली के लिए प्रतिभूत परिसंपत्तियों के प्रबंधन के अधिग्रह

के अधिकार सहित उसका अधिग्रहण करने जैसी सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाएगा। सूचित किया जाता है कि बैंक की लिखित अनुमति के बिना आप नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बेक्री, पद्मा अथवा अन्य रूप से अंतरण नहीं कर सकते हैं। अपनी देयता को निष्पादित नहीं करने तथ बैंक द्वारा उपचारात्मक कारवीई शुरू किए जाने की स्थिति में आप उसके आगे भी उस सिलसिले ग वहन किए गए सभी लागत, चार्जेज तथा खर्चे का बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यि प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री राशि से संपूर्ण देयता पूरी नहीं होती है तो आगे बिना किसी सूचना बैंक शेष राशि की वसूली के लिए व्यक्तिगत रूप से आपके विरुद्ध कारवीई करेगा। आपका ध्यान प्रतिभृति परिसम्पत्तियों (प्रतिभूत सम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम क धारा 13 (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है।

यह सचना 29 सितम्बर, 2021 को जारों की गई थी तथा वह आपको सर्व की गई किन्त ऐसा प्रतीत होत है कि आप ने उसे प्राप्त नहीं किया जिस कारण से सरफेसी अधिनियम के अनुसार यह प्रकाशन आवश्यक हो गया है। यह सुचना बकाए की वसुली के लिए बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों तथा उपचारों के प्रति पूर्वाग्रह

रहित है।

कृते फेडरल बैंक लिमिटेड, उप उपाध्यक्ष (सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी आज दिनांक 15 दिसम्बर, 2021

ऋण वसूली ट्रिब्युनल, देहरादून

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादुन, उत्तराखंड-248171 ऋण वसुली अधिकारी -2, के सामने माजरा,डी आर.टी ,देहरादून

<u>ई नीलामी सूचना</u>

दिनांक: 24/11/2021

रु. 1,64,63,749,75 (एक करोड़ चौंसठ लाख तिरेसठ हजार सात सौ उनचास रुपये और पचहत्तर पैसे मात्र)

जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ''जैसा है जहां है'' के आधार पर बकाया राशि की वसूली के लिए 29,01.2022 को ई-नीलामी बिक्री द्वारा उल्लिखित संपत्ति की बिक्री की जाएगी और संभावित बोलीदाता 28,01.2022 शाम 4.00 बजे तक नीलामी के लिए आवेदन कर सकते हैं। शीर्षक का मामला और आर.सी. संख्या वसूली योग्य राशि पंजाब नेशनल बैंक

+12% ब्याज प्रति वर्ष) ब्याज मासिक 16.08.2019 से प्लस लागत/आर.सी. के आधार पर वसूली तक प्रभार अनिर्णित। मेसर्स ग्रेट इंडो राइजर्स एवं अन्य। आरसी नं0 266/2020 बोली की अंतिम तिथि: 28.01.2022 अपराह्व 04:00 बजे तक बोली वृद्धि राशि रिजर्व कीमत सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक रू 14.31 लाख रू 1.43 लाख ₹ 50000/

सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक रू 12.40 लाख रू 1.24 लाख रू 50000/-सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक रू 18.68 लाख रू 1.87 लाख ₹ 50000/-(हर बार 5 मिनट के विस्तार के साथ यदि बोली बंद होने के समय के अंतिम पांच मिनट में या नीलामी के ऐसे विस्तारित समय में रखी जाती है)

<u>बेची जाने वाली संपत्ति का विवरणः</u>-संपत्ति 1 :- 4400 वर्ग फीट और 408.92 वर्ग मीटर है जिसका खसरा नं0 522एम है, जा गाँव बेल्दा, परगना एवं तहसील रूड़की जिला हरिद्वार में स्थित है।

संपत्ति 2:- प्लॉट नं. जी-195 खसरा नं 1076/5/2/953, जो दिलशाद एक्सटेंशन, ग्राम झिलमिल ताहिरपुर, शाहदरा, दिल्ली 110095 में है।

संपत्ति 3:- 1.168 हेक्टेयर कृषि भूमि जिसका खसरा नं. 101 और 152 है जो अलमासपुर, परगना और तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में स्थित है।

स्थान : नई दिल्ली

ı. नीलामी '' ऑनलाईन ई-नीलामी'' के माध्यम से ibapi,MSTC के माध्यम से, उनकी वेबसाईट/पोर्टल https://www.mstcecommerce.com & https://www.ibapi.com के माध्य से आयेजित की जायेंगी। 2. इच्छुक बोलीदाता को नीलामी तिथि से पहले अपने खाते से एनईएफटी/आरटीजीएस/हस्तांतरण/चालान के माध्यम से ईएमडी राशि को एमएसटीसी के पास बनाए गए अपने लोबल ईएमडी वॉलेट मेस्थानांतरित कर देना चाहिए। 3. पहचान की स्कैन गई कॉपी में भविष्य के संचार के लिए पता (जैसे वोटर आई कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट) और पैल कार्ड कर कॉपी होनी चाहिए जिसे उपरोक्त वेबसाईट पर अपलोड किया जाना चाहिए या 🛛 Recovery Officer-II, DRT, Debradun.देहरादून को जमा किया जाना चाहिए। 4. संपत्ति को ''जहाँ है जैसा है केक माधार पर बेचा जा रहा है। 5. संभावित बोलीदाताओं को यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करना आवश्यक है, जो उपरोक्त में बोनी लगाने के लिए अनिवार्य हैं lbapi, mstc से अग्रिम रूप से ई-नीलामी या 8800017260, 9990696436 पर सम्पर्क कर सकते है। आगे की सहायता के लिए संभावित बोलीदाता श्री कुवॅर सिंह नेगी जी, मुख्य प्रबंधक, , पंजाब नेशनल बैंक, रिकवरी सेंटर हरिद्वार उत्तराखंड से सम्पर्क का सकते है । (मोबाइल नंबर –8800017260) ibapi, mstc की हेल्प लाइन नं० 8800017260, 9990696436 और पोर्टल ई-नीलामी के लिए cs8238@pnb.co.in. 6. संभावित बोलीदाता <u>आईबीएपीआई, एमएसटीसी से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।</u> 7. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट

https://www.mstcecommerce.com और https://www.ibapi-com देखें। अपनी बोली जमा करने और ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले नीलामी बिक्री के लिए विस्तृत नियम और शर्तों के लिए और या संपर्क करें ढहेल्प लाइन नंबर वेबसाइट पर उल्लेख किया गया हैं। 🎗 बोलीदाता रूपये के गुणक में प्रस्ताव में सुधार करेगा । 50,000/ – (रूपये पचास हजार मात्र) 🤈 यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है, तो समापन स्वचालित रूप से 5 औा मिनटों तक बढ़ जाता है। 10. यदि वसूली अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी की बोली या बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित या रद् करने का पूर्ण अधिकार है । 11. उच्चतम बोली लगाने वाले के पक्ष में बिक्री वसूली अधिकारी, डीआरटी, देहरादून द्वारा पुष्टि के अधीन है। 12. किसी भी नेटवर्क समस्या के लिए बैंक/डीआरटी जिम्मेदार नही होगा। 13. उपरोक्त संपत्ति के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप अधोहस्ताक्षरी या श्री से संपर्क कर सकते हैं। श्री कुंवर सिंह नेगी, मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल

बैंक, रिकवरी सेंटर हरिद्वार, उत्तराखंड (मोबाइल नंबर -8800017260)। संपत्ति की अनुसूची

लोट नं0	अन्य सह स्वामी के नाम के साथ बेची जाने वाली संपत्ति का विवरण। संपत्ति डिफाल्टर की है और सह-मालिक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की है।	संपत्ति या उसके किसी भागपरनिर्धारितराजस्व	किसी भी ऋणभार का विवरण जिसके लिए संपत्ति उत्तरदायी है।	दावे, किसी भी संपत्ति को आगे रखा गया है और प्रकृति और मूल्य पर कोई अन्य ज्ञात विशेष प्रभाव।
1	2	3	4	5
(i) (ii) (iii)	संपत्ति 1:- 4400 वर्ग फीट और 408.92 वर्ग मीटर है जिसका खसरा नं0 522एम है, गाँव बेल्दा, परगना एवं तहसील रूड़की जिला हरिद्वार में स्थित है। संपत्ति 2:-प्लॉट नं. जी-195 बेसमेंट/फ्लैट जिसका खसरा नं 1076/5/2/953, जो दिलशाद एक्सटेंशन, ग्राम झिलमिल ताहिरपुर, शाहदरा, दिल्ली 110095 में है। संपत्ति 3:- 1.168 हेक्टेयर कृषि भूमि जिसका खसरा नं. 101 और 152 है जो अलमासपुर, परगना और तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में स्थित है।	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं
यह नोवि	ट्स 24 नवम्बर 2021 के दिन मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर के अंतर्गत जारी किया गया	<u>.</u> है।		ऋण वसूली अधिकारी - II डॉ.आर.टी., देहरादून

नई दिल्ली